

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त 2022 — श्रावण 14, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 अगस्त 2022

### अधिसूचना

क्रमांक 8997/21-अ/स्थापना/छ.ग./2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधि और विधायी कार्य विभाग सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

### संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण

या

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।”

2. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(3) मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।”

3. अनुसूची-तीन के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (5) की प्रविष्टि (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति का प्रमाणपत्र (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

अटल नगर, दिनांक 5 अगस्त 2022

क्रमांक 8997/21-अ/स्थापना/छ.ग./2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05-08-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

Atal Nagar, the 5th August 2022

#### NOTIFICATION

No.8997/XXI-A/Estt./C.G./2022.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Law and Legislative Affairs Department Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1983, namely:-

#### AMENDMENT

In the said rules,-

1. For entries of column (5) of serial number 5 of Schedule-III, the following entries shall be substituted, namely:-

“(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized Institute and Certificate of Hindi or English typing 5,000 (Key) depression per hour (through computer and Software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken).”

2. For entry (3) of column (5) of serial number 6 of Schedule-III, the following entry shall be substituted, namely:-

"(3) Certificate of Hindi or English typing 5000 (Key) depression per hour (through computer and software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken)."

3. For entry (2) of column (5) of serial number 8 of Schedule-III, the following entry shall be substituted, namely:-

"(2) one year diploma/certificate in data entry operator/programming from any recognized Institute and Certificate of Hindi and English typing 8000 (key) depression per hour (through computer and Software) from recognized Board/Institute or Chhattisgarh Stenography Typing Examination Council (efficiency test for speed shall be taken)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
UMESH KUMAR KATIYA, Additional Secretary.